

## हम होंगे कामयाब

हम होंगे कामयाब , हम होंगे कामयाब ,  
हम होंगे कामयाब एक दिन .... ।  
हो हो मन में है विश्वास , पूरा है विश्वास ,  
हम होंगे कामयाब एक दिन .... ॥ 1 ॥

## Rough Latin Transliteration

hum honge kaamyaab, hum honge kaamyaab,  
hum honge kaamyaab ek din.....  
ho ho man me hai vishwas, poora hai vishwas,  
hum honge kaamyaab, ek din.... 1

होगी शांति चारों ओर , होगी शांति चारों ओर ,  
होगी शांति चारों ओर एक दिन .... ।  
हो हो मन में है विश्वास , पूरा है विश्वास ,  
हम होंगे कामयाब एक दिन .... ॥ 2 ॥

hogi shanti chaaron or, hogi shanti chaaron or,  
hogi shanti chaaron or ek din.....  
ho ho man me hai vishwas, poora hai vishwas,  
hum honge kaamyaab, ek din... 2

हम चलेंगे साथ साथ , लेके हाथों में हाथ ,  
हम चलेंगे साथ साथ हर दिन .... ।  
हो हो मन में है विश्वास , पूरा है विश्वास ,  
हम होंगे कामयाब एक दिन .... ॥ 3 ॥

hum challenge sath sath, leke haathon me  
haath,  
hum challenge sath sath har din.....  
ho ho man me hai vishwas, poora hai vishwas,  
hum honge kaamyaab, ek din... 3

नहीं डर किसी का आज , नहीं भय किसी का आज ,  
हम बेडर चलेंगे हर एक दिन ... ।  
हो हो मन में है विश्वास , पूरा है विश्वास ,  
हम होंगे कामयाब एक दिन .... ॥ 4 ॥

Nahin dar kisi ka aaj, nahin bhay kisi ka aaj,  
hum bedar challenge har ek din.....  
ho ho man me hai vishwas, poora hai vishwas,  
hum honge kaamyaab, ek din... 4

### Rough meaning:

One day, we shall triumph! Deep in our hearts, we strongly trust, that we shall triumph.

There will be peace everywhere. We are sure it will be peaceful everywhere, when we triumph.

We shall walk together, hand in hand, every day and triumph.

We have no fear now. We shall walk fearlessly every day and triumph.

**Note:** The famous English song “We shall overcome” was translated into Hindi by poet Girijakumar Mathur. Given above, is its revised version.